

प्रेस नोट

दिनांक 14.10.2021

सराहनीय कार्य थाना जगदीशपुर पुलिस जनपद अमेठी
अमेठी पुलिस ने गुमशुदा बालक को बरामद कर परिजनो को लौटायी मुस्कान

13 वर्षीय गुमशुदा बालक को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द

थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी में दर्ज मु0अ0सं0 340/21 धारा 363 भादवि में गुमशुदा श्रेयांश उर्फ पीयूष तिवारी पुत्र विश्वनाथ तिवारी निवासी दिछौली थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी उम्र 13 वर्ष की तलाश पतारसी हेतु पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दिनेश सिंह के निर्देशन में कई पुलिस टीमों बरामदगी हेतु लगायी गयी थी तथा प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ली जा रही थी। लगायी गयी पुलिस टीम के अथक प्रयास से आज **दिनांक 14.10.21** को गुमशुदा श्रेयांश उर्फ पीयूष तिवारी को लुधियाना पंजाब से सकुशल बरामद किया गया। गुमशुदा श्रेयांश उर्फ पीयूष तिवारी **दिनांक 17.09.2021** को घर से नाराज होकर बिना किसी को बताये मोटरसाइकिल से लिफ्ट लेकर निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पहुँचकर बेगमपुरा एक्सप्रेस से दिव्यांग कम्पार्टमेन्ट में बैठ कर लखनऊ पहुंचा, उसी डिब्बे में जयशंकर पुत्र रामराज निवासी ग्राम बाकी थाना मांझी जिला सोनभद्र उम्र 16 वर्ष नाम का लड़का मौजूद था, जो लुधियाना जा रहा था। जिससे गुमशुदा ने बताया कि मेरे मां बाप की मृत्यु हो गयी है। मुझे कोई सहारा नहीं दे रहा है। इस पर दया खा कर जयशंकर उपरोक्त गुमशुदा को मानवता के कारण अपने साथ लुधियाना पंजाब जाने के लिए राजी हो गया और दोनो लुधियाना पंजाब चले गये। जहां पर जयशंकर फैक्ट्री में काम करके गुमशुदा को रहने खाने की व्यवस्था किया था। एक अज्ञात मोबाइल नंबर से गुमशुदा श्रेयांश उर्फ पीयूष तिवारी के घर पर काल आने पर उस पर शक हुआ तथा परिजनो के द्वारा बताये जाने पर उक्त नम्बर का सर्विलान्स के माध्यम से लोकेशन प्राप्त कर लुधियाना पंजाब से गुमशुदा की बरामदगी करने में सफलता प्राप्त हुई। **जयशंकर उपरोक्त कामधेनु स्पनिंग मिल प्राईवेट लिमिटेड कौहाडा रोड लक्खवाल थाना कोमकला लुधियाना पंजाब** में काम करता है तथा उसी फैक्ट्री के आवास में ही लड़के को रखा था जहां से पुलिस द्वारा श्रेयांश उर्फ पीयूष तिवारी को सकुशल बरामद किया गया। बच्चे के परिजनों को थाने बुलाकर सकुशल सुपुर्द किया गया। व्यापार मण्डल, दुर्गापूजा समित जगदीशपुर व बच्चे के परिवारीजन द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय व अन्य पुलिस टीम को सम्मानित किया गया तथा पुलिस को धन्यवाद दिए।

बरामद गुमशुदा का नाम व पता-

- श्रेयांश उर्फ पीयूष तिवारी पुत्र विश्वनाथ तिवारी निवासी दिछौली थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी उम्र 13 वर्ष

तलाश करने वाली टीम पुलिस*

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अरूण कुमार द्विवेदी थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी
2. उ0नि0 अखण्ड देव मिश्रा थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी
3. हे0का0 बिजेन्द्र वर्मा थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी
4. का0 राम नयन चौधरी थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी